



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2013/कार्तिक 29, 1935

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2013/KARTIKA 29, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2013

सं. टीएमपी/6/2010-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता इसके साथ संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/6/2010-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

...

आवेदक

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री चंद्र भान सिंह, सदस्य (अर्थ)

आदेश

(अक्तूबर 2013 के 29वें दिन पारित)

यह प्रकरण कोलकाता पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. केओपीटी के प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएमपी/6/2010-केओपीटी, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 के जरिये अनुमोदित किया गया था जिसे भारत का राजपत्र में 15 फरवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। वह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक प्रदान करता है। बाद में, केओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 मई, 2013 के आदेश के जरिये 30 सितंबर, 2013 तक विस्तारित की गई थी।

3. दिनांक 30 जनवरी, 2013 के अपने पत्र के जरिये केओपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता एसोसिएशन के साथ परामर्श के लिए लिया गया है। दिनांक 22 मई, 2013 के हमारे पत्र के जरिये केओपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2013 और 20 अगस्त, 2013 के उनके पत्रों के जरिये दे दी गई है। प्रस्तुत उत्तरों की जांच की जा रही है और इस प्राधिकरण के विचारार्थ परिपक्व होने में प्रकरण को कुछ समय लग सकता है।

4. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह प्राधिकरण, दिनांक 9 मई, 2013 के आदेश में वर्णित कारणों से 4% की विशेष दर के साथ केओपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2013 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इन में से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. इसकी निष्पादनता की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल, 2013 के बाद की अवधि के लिये स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष केओपीटी के पास जमा होता है तो वह, अगले चक्र के लिये तय किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरा-पूरा समायोजित किया जाएगा। केओपीटी को 1 अप्रैल, 2013 के बाद यदि कोई हानि पहुंची होगी तो वह निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित नहीं की जाएगी।

टी. एस. बालासुब्रमणियन्, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/13]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

No. TAMP/6/2010-KOPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/6/2010 - KOPT

The Kolkata Port Trust

QUORUM

Applicant

(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of October, 2013)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kolkata Port Trust (KOPT).

2. The existing Scale of Rates of KOPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/6/2010-KOPT dated 29th November, 2010 which was notified in the Gazette of India on 15th February, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31st March, 2013. Subsequently, the validity of the existing SOR of KOPT was extended by this Authority till 30th September, 2013 vide Order dated 9th May, 2013.

3. The proposal filed by the KOPT vide its letter dated 30th January, 2013 was taken on consultation with the concerned users/user association. The additional information/clarification sought from the KOPT vide our letter dated 22nd May, 2013 has been furnished by the port vide its letter dated 14th August, 2013 and 20th August, 2013. The replies furnished are being examined and it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. In view of the above position, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KOPT along with special rate of 4% for reasons recorded in the Order dated 9th May, 2013 till 31st December, 2013 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the KOPT post 1st April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle. If any loss is suffered by the KOPT beyond 1st April, 2013, it would not be factored in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Ext./143/13]